

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 मई 2013—वैशाख 18, शक 1935

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्र. एफ-12-15-11-सत्रह-मेडि-3.—राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मार्च 2011 एवं मेडीकल मैनुअल (संशोधित प्रकाशन 1940) के पैरा 476 में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

संशोधन

इस विभाग के अधीन शासकीय चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों के आंतरिक रोगियों के लिये निर्धारित भोजन पर होने वाले व्यय रु.30/- से बढ़ाकर रु. 40/- प्रतिदिन प्रत्येक आन्तरिक रोगी के लिये जारी आदेश दिनांक से निम्न तालिका अनुसार निर्धारित करता है :—

डाईट चार्ट-सोमवार/गुरुवार

समय (1)	सामग्री (2)	अनुमानित मात्रा (3)	कीमत (रुपये में) (4)
नाश्ता 9:00 से 9:30	दूध	1 ग्लास (250 एम. एल.)	9
भोजन 1:30 से 2:00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)	2
	रोटी	3-4 नग (35 ग्राम)	4
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि).	1 कटोरी (100 ग्राम)	4

(1)	(2)	(3)	(4)
	दाल (अरहर/खड़ी मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	3
	नमकीन दलिया	1 कटोरी (100 ग्राम)	3
संध्या 3:30 से 4:30 बजे	चाय	1 कप (125 एम. एल.)	2
	बिस्किट	4 नग	2
रात्री भोजन 8:00 से 8:30 बजे	रोटी	3-4 नग (120 ग्राम)	4
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि).	1 कटोरी (100 ग्राम)	4
	दाल (अरहर/खड़ी मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	3
			40
डाईट चार्ट-मंगलवार/शुक्रवार/रविवार			
नाश्ता 9:00 से 9:30	दूध	1 ग्लास (250 एम. एल.)	9
भोजन 1:30 से 2:00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)	2
	रोटी	3-4 नग (120 ग्राम)	4
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि).	1 कटोरी (100 ग्राम)	4
	दाल (मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	3
	चावल	1 कटोरी (150 ग्राम)	3
संध्या 3:30 से 4:30 बजे	चाय	1 कप (125 एम. एल.)	2
	बिस्किट	4 नग	2
रात्री भोजन 8:00 से 8:30 बजे	रोटी	3-4 नग (120 ग्राम)	4
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि).	1 कटोरी (100 ग्राम)	4
	दाल (अरहर/खड़ी मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	3
			40

(1)	(2)	(3)	(4)
डाईट चार्ट-बुधवार/शनिवार			
नाश्ता 9:00 से 9:30	दूध	1 ग्लास (250 एम. एल.)	9
भोजन 1:30 से 2:00 बजे	सलाद	1 कटोरी (50 ग्राम)	2
	रोटी	3-4 नग (120 ग्राम)	4
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि).	1 कटोरी (100 ग्राम)	4
	दाल (अरहर/खड़ी मूंग)	1 कटोरी (30 ग्राम)	3
संध्या 3:30 से 4:30 बजे	नमकीन दलिया	1 कटोरी (150 ग्राम)	3
	चाय	1 कप (125 एम. एल.)	2
रात्री भोजन 8:00 से 8:30 बजे	बिस्किट	4 नग	2
	रोटी	3-4 नग (100 ग्राम)	4
	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हरी सब्जी (लौकी, तुरई, गिल्की, टमाटर, सेम, भिण्डी, पालक आदि).	1 कटोरी (100 ग्राम)	4
	दाल (अरहर/खड़ी मूंग)	1 कटोरी (100 ग्राम)	3
			40

2. उक्त आन्तरिक रोगियों के लिए भोजन दरों में की गई वृद्धि हेतु वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 136-आर-02-बी-6-13, दिनांक 28 फरवरी 2013 द्वारा दी गई सहमति के परिपेक्ष्य में जारी की गई.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.